



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 2017/ ज्येष्ठ 5, 1939

No. 422]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 2017/ JYAISTHA 5, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2017

**सा.का.नि. 521(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में हैड कांस्टेबल के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो हैड कांस्टेबल भर्ती नियम, 2017 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, इत्यादि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता: वह व्यक्ति.**—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हैड कांस्टेबल	15* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय। (योधक)	लेवल 4 (रु. 25500-81100/-)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केंद्रीय या राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी –</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हो; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3 (रु.21700-69100/-) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; अथवा</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (रु.19900-63200/-) में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो:</p> <p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा पास;</p> <p>(ii) निम्नलिखित पाठ्यक्रम में से किसी एक को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो: –</p> <p>(क) डिल अनुदेशक अथवा शस्त्र एवं युक्ति अथवा शारीरिक प्रशिक्षण अथवा निःशस्त्र मुठभेड़ अथवा मैप रीडिंग अथवा फील्डक्राफ्ट।</p> <p>(ख) चिकित्सा श्रेणी – शेप-1.</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>(i) केंद्रीय अथवा राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में एक वर्ष के कार्य का अनुभव।</p> <p>(ii) किसी खेल/गेम में दक्षता।</p> <p>(iii) 50 वर्ष से कम आयु को वरियता।</p>	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

<p><b>टिप्पण 1.</b> – प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2.</b> – प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--

[फा. सं. 23011/209/2016-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th May, 2017

**G.S.R. 521(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Head Constable, Central Academy for Police Training, Bhopal, in the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely: -

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Head Constable, Central Academy for Police Training, Bhopal, Bureau of Police Research and Development, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.** – The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Head Constable</b>	<b>15*</b> (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Level 4 (Rs. 25500-81100/-).	Not applicable	Not applicable.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<b>Deputation</b> Officers of the Central or the State police organisation: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years' regular service in level 3 (Rs. 21700-69100/-) in the pay matrix; or (iii) with eight years' regular service in level 2 (Rs. 19900-63200/-) in the pay matrix; and (b) possessing the following educational qualification and experience: <b>Essential:</b> (i) 10 <sup>th</sup> class pass from recognised Board; and (ii) successfully completed any one of the following course: - (A) Drill Instructor or weapon and tactics or physical training or unarmed combat or Map reading or field craft; (B) Medical Category-SHAPE-1. <b>Desirable:</b> (i) one year of working experience in any Central or State police training institute; (ii) proficiency in any game or sports; (iii) age preferably below 50 years. <b>Note 1:</b> Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. <b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 50 years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Not applicable

[F. No. 23011/209/2016-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.